

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 फरवरी 2019—माघ 19, शक 1940

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2019

क्रमांक ई-1-14/2015/एक-2.—श्री भरत लाल बंजारे को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रिट पिटीशन क्र. 727/2016 तथा 714/2016 में पारित आदेश दिनांक 25-04-2017 के परिपालन में दिनांक 04-01-2018 को रिव्यू डीपीसी आयोजित कर सलेक्ट लिस्ट-2010 के अंतर्गत भारत सरकार के अधिसूचना क्र. 14015/46/2017-एआईएस (I)-बी, दिनांक 06-04-2018 द्वारा भा.प्र.से. में नियुक्त करते हुए आदेश क्र. 14014/22/2004-एआईएस (I) दिनांक 24-08-2018 द्वारा उन्हें भा.प्र.से. में 2003 बैच आर्बित किया गया है.

2. उक्त न्याय निर्णय के अनुपालन में अनुषांगिक लाभ प्रदान करते हुए श्री भरत लाल बंजारे, भाप्रसे (2003) संयुक्त सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा समाज कल्याण विभाग को अर्हता दिनांक 01-01-2016 से सेवा के प्रवर श्रेणी वेतनमान (—Pay Matrix Level-13) में नियुक्त करते हुए अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, वन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2019

क्रमांक एफ-1-06/2018/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा प्रशासनिक आधार पर तत्काल प्रभाव से निम्नांकित भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम 4 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त तक पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री अरूण देव गौतम भापुसे-1992	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सी.आई.डी. पुलिस मुख्यालय, रायपुर	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह जेल एवं परिवहन विभाग, मंत्रालय रायपुर
2.	श्री जी. पी. सिंह भापुसे-1994	पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज, दुर्ग	पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, रायपुर
3.	श्री एस.आर.पी. कल्लूरी भापुसे-1994	पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण) पुलिस मुख्यालय, रायपुर	पुलिस महानिरीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू. एवं ए.सी.बी. रायपुर
4.	श्री दिपांशु काबरा भापुसे-1997	पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज, रायपुर	पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय, रायपुर
5.	डॉ. आनंद छाबड़ा भापुसे-2001	विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन गृह, जेल एवं परिवहन विभाग मंत्रालय, रायपुर.	प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज, रायपुर
6.	श्री रतन लाल डांगी भापुसे-2003	उप पुलिस महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज	प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज, दुर्ग.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 1-25/2016/16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 11 में, उप-नियम (2) में, शब्द “उसके साक्षात्कार के पश्चात्” के स्थान पर, शब्द “प्रतियोगिता परीक्षा में मेरिट के आधार पर” प्रतिस्थापित किया जाये.
2. अनुसूची-एक, दो एवं तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“अनुसूची-एक
(नियम 4 (1) तथा 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अधीक्षक/संयुक्त पंजीयक (मुख्यालय)	01	तृतीय श्रेणी	वेतन मेट्रिक्स लेवल-9	
2.	निज सहायक	01	—तदैव—	वेतन मेट्रिक्स लेवल-9	
3.	अधीक्षक (श्रम न्यायालय)	03	—तदैव—	वेतन मेट्रिक्स लेवल-9	
4.	सहायक लेखाधिकारी	01	—तदैव—	वेतन मेट्रिक्स लेवल-9	
5.	सहायक अधीक्षक	16	—तदैव—	वेतन मेट्रिक्स लेवल-8	
6.	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	03	—तदैव—	वेतन मेट्रिक्स लेवल-7	
7.	लेखापाल (बेंच)	01	—तदैव—	वेतन मेट्रिक्स लेवल-6	
8.	सहायक ग्रेड-दो	25	—तदैव—	वेतन मेट्रिक्स लेवल-6	
9.	सहायक ग्रेड-तीन	26	—तदैव—	वेतन मेट्रिक्स लेवल-4	
10.	स्टेनो टायपिस्ट	14	—तदैव—	वेतन मेट्रिक्स लेवल-4	
11.	वाहन चालक	03	—तदैव—	वेतन मेट्रिक्स लेवल-4	

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6 (1)(क) देखिये]	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6 (1)(ख) देखिये]	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा [नियम 6 (1) (ग) देखिये]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	अधीक्षक/संयुक्त पंजीयक (मुख्यालय)	01	—	100%	—	
2.	निज सहायक	01	—	100%	—	
3.	अधीक्षक (श्रम न्यायालय)	03	—	100%	—	
4.	सहायक लेखाधिकारी	01	—	—	प्रतिनियुक्ति द्वारा	
5.	सहायक अधीक्षक	16	—	100%	—	
6.	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	03	50%	50%	—	
7.	लेखापाल (बेंच)	01	—	100%	—	
8.	सहायक ग्रेड-दो	25	—	100%	—	
9.	सहायक ग्रेड-तीन	26	75%	25%	—	
10.	स्टेनो टायपिस्ट	14	100%	—	—	
11.	वाहन चालक	03	100%	—	—	

अनुसूची-तीन
(नियम 8 देखिये)

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिये 35 वर्ष)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>(2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था/शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद् से :—</p> <p>(क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिये—हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी).</p> <p>(ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए—अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्र-लेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी).</p> <p>(ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए—ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण तथा शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी).</p>
					<p>(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री की 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी).</p>
2.	स्टेनो टायपिस्ट	—तदैव—	—तदैव—		<p>(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,</p> <p>अथवा</p> <p>पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी).	
				(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एण्ट्री की 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी).	
3.	सहायक ग्रेड-तीन	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिये 35 वर्ष)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण.	
				(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र.	
				(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति. (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी).	
4.	वाहन चालक	21 वर्ष	—तदैव—	कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हल्के वाहन का ड्राइविंग लायसेंस होना चाहिए.”	

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिव्या उमेश मिश्रा, उप-सचिव.

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 1-25/2016/16.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-25/2016/16, दिनांक 27-12-18 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिव्या उमेश मिश्रा, उप-सचिव.

Atal Nagar, Raipur, the 27th December 2018

No. F 1-25/2016/16.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Labour Judiciary Class-III (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 11, in sub-rule (2), for the words, “after interviewing them”, the words “on the basis of merit in the competitive examination” shall be substituted.
2. For Schedule-I, II and III the following shall be substituted, namely :—

“SCHEDULE-I [See rule 4(1) and (5)]

S. No.	Name of posts included in the service	Total number of duty posts	Classification	Pay Matrix	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Superintendent/Joint Registrar (Head Office)	01	Class-III	Pay Matrix Level-9	
2.	Personal Assistant	01	--do--	Pay Matrix Level-9	
3.	Superintendent (Labour Court).	03	--do--	Pay Matrix Level-9	
4.	Assistant Account Officer	01	--do--	Pay Matrix Level-9	
5.	Assistant Superintendent	16	--do--	Pay Matrix Level-8	
6.	Stenographer Grade-III	03	--do--	Pay Matrix Level-7	
7.	Accountant (Bench)	01	--do--	Pay Matrix Level-6	
8.	Assistant Grade-II	25	--do--	Pay Matrix Level-6	
9.	Assistant Grade-III	26	--do--	Pay Matrix Level-4	
10.	Steno-Typist	14	--do--	Pay Matrix Level-4	
11.	Driver	03	--do--	Pay Matrix Level-4	

SCHEDULE-II

[See rule 6]

S. No.	Name of Service/ post	Total number of duty posts	Percentage of number of the posts to be filled in			Remarks
			By direct recruitment [See rule 6(1) (a)]	By promotion of the members of the Service [See rule 6(1)(b)]	By transfer/ deputation from other Services [See rule 6(1)(c)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Superintendent/Joint Registrar (Head Office)	1	—	100%	—	
2.	Personal Assistant	1	—	100%	—	
3.	Superintendent (Labour Court)	3	—	100%	—	
4.	Assistant Account Officer	1	—	—	by deputation	
5.	Assistant Superintendent	16	—	100%	—	
6.	Stenographer Grade-III	03	50%	50%	—	
7.	Accountant (Bench)	1	—	100%	—	
8.	Assistant Grade-II	25	—	100%	—	
9.	Assistant Grade-III	26	75%	25%	—	
10.	Steno-Typist	14	100%	—	—	
11.	Driver	03	100%	—	—	

SCHEDULE-III

[See rule 8]

S. No.	Name of Service/ Posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Stenographer Grade-III	18 years	30 years (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board. OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				<p>(2) From any recognized Board/ Institute/Stenography (Short-hand) Typing Council:—</p> <p>(a) For Stenographer (Hindi)- Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).</p> <p>(b) For Stenographer (English)- Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).</p> <p>(c) For Bilingual Stenographer- Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).</p> <p>(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).</p>	
2.	Steno Typist	18 years	30 years (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	<p>(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board.</p> <p>OR</p> <p>Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University.</p> <p>(2) 60 words per minute Speed in Hindi Stenography (Short-hand) (efficiency test for speed shall be taken).</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
3.	Assistant Grade-III	18 years	30 years (35 years for domicile resident of Chhattisgarh State)	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board. OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute. (3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken).	
4.	Driver	21 Years	—do—	Should have passed 8th class examination and have Light Motor Vehicle license issued by the competent Authority.”	

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DIVYA UMESH MISHRA, Deputy Secretary.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 2-3/2004/19/स्था-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-एक एवं दो में, शीर्षक “चतुर्थ श्रेणी (राज्य संवर्ग से भिन्न) के अन्तर्गत शब्द “प्रयोगशाला सहायक” जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द “प्रयोगशाला अनुचर” प्रतिस्थापित किया जाये.

2. अनुसूची-तीन में सरल क्रमांक 14, में, कॉलम (2) में, शब्द “प्रयोगशाला सहायक” के स्थान पर, शब्द “प्रयोगशाला अनुचर” प्रतिस्थापित किया जाये.
3. अनुसूची-चार में, सरल क्रमांक 12 एवं 13 में, कॉलम (2) एवं (4) में क्रमशः शब्द “प्रयोगशाला सहायक” के स्थान पर, शब्द “प्रयोगशाला अनुचर” प्रतिस्थापित किया जाये.
4. अनुसूची-दो में, शीर्षक “तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक से भिन्न तकनीकी) के अन्तर्गत सरल क्रमांक 4 में, कॉलम (4) एवं (5) में, क्रमशः अंक “50%” तथा “50%” के स्थान पर, अंक “75%” तथा “25%” प्रतिस्थापित किया जाये.
5. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 1 में, कॉलम (5) में, प्रविष्टि (1) में, शब्द “सिविल” के पश्चात् एवं शब्द “में न्यूनतम” के पूर्व, अल्प विराम चिन्ह एवं शब्द “, इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल” को विलोपित किया जाये.
6. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 3 में कॉलम (5) में शब्द “सिविल” के पश्चात् तथा शब्द “इंजीनियरिंग” के पूर्व, चिन्ह तथा शब्द “/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल” को विलोपित किया जाये.
7. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 5 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—
“ड्राईंग को एक विषय के रूप में लेकर किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) या उसके समकक्ष किसी परीक्षा का प्रमाणपत्र या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था/बोर्ड का प्रमाणपत्र;

अथवा

छत्तीसगढ़ बोर्ड या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड से हायर सेकेण्डरी (तकनीकी) परीक्षा का प्रमाणपत्र;

अथवा

सर्वेयर का व्यवसायिक शिक्षुता प्रमाणपत्र.”

8. अनुसूची-चार में सरल क्रमांक 5, 6 एवं 7 के कॉलम (6) से संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाये.
9. अनुसूची-चार में, सरल क्रमांक 12 में, कॉलम (2) में, शब्द तथा चिन्ह “रिकार्ड कीपर/प्रयोगशाला अनुचर” के पश्चात्, चिन्ह तथा शब्द “/चौकीदार (नियमित स्थापना)” जोड़ा जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. ताम्रकार, उप-सचिव.

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

क्रमांक एफ 2-3/2004/19/स्था-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 2-3/2004/19/स्था.-3, दिनांक 14-12-2018 का हिन्दी अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. ताम्रकार, उप-सचिव.

Atal Nagar, Raipur, the 14th December 2018

No. F 2-3/2004/19/estt-3.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Public Works Department (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2016, namely :—

AMENDMENT

In schedule of the said rules,—

1. In Schedule-I and II, under heading “Class-IV (other then state Cadre)”, for the words “Lab Attendant” wherever they occur, the words “Laboratory Attendant” shall be substituted.
2. In Schedule-III, in serial number 14, in column (2) for the words “Lab Attendant”, the words “Laboratory Attendant” shall be substituted.
3. In Schedule-IV, in serial number 12 and 13, in column (2) and (4) respectively, for the words “Lab Attendant”, the words “Laboratory Attendant” shall be substituted.
4. In Schedule-II, Under Heading “Class-III (Technical Other than Executive)”, in serial number 4, in column (4) and (5), for the figure “50%” and “50%”, the figure “75%” and “25%” shall be substituted, respectively.
5. In Schedule-III, in serial number 1, in column (5), in entry (1), after the word “Civil” and before the words “or equivalent”, the punctuation comma and words “,Electrical and Mechanical” shall be omitted.
6. In Schedule-III, in serial number 3, in column (5), after the word “Civil” and before the word “Engineering” the symbol and words “/Electrical/Mechanical” shall be omitted.
7. In Schedule-III, for entry relating to column (5) of serial number 5, the following shall be substituted, namely:-

“Should have certificate of Higher Secondary School Examination (10+2) from any recognized Institution/ Board having one subject of drawing or any examination equivalent thereto or certificate of any other Institution/Board recognized by the State Government in this regard;

Or

Certificate of Higher Secondary (Technical) Examination from Chhattisgarh Board or any other equivalent Board;

Or

Surveyor trade certificate Apprenticeship.”

8. In Schedule-IV, the entries relating to column (6) of serial number 5, 6 and 7 shall be omitted.
9. In Schedule-IV, in serial number 12, in column (2), after the word and symbol “Record Keeper/Laboratory Attendant”, the symbol and words “/Chowkidar (Regular Establishment)” shall be added.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. L. TAMRAKAR, Deputy Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

क्रमांक/3087/अ-82/2018-19/भू-अर्जन/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	पलारी	5.836	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव.	पलारी व्यपवर्तन योजना अंतर्गत बाईपास निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोण्डागांव, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

क्रमांक/3088/अ-82/2018-19/भू-अर्जन/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	डोंगरीगुड़ा	4.276	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव.	डोंगरीगुड़ा व्यपवर्तन योजना अंतर्गत बाईपास निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोण्डागांव, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

क्रमांक/3089/अ-82/2018-19/भू-अर्जन/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	कोण्डागांव	4.300	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव.	कोण्डागांव व्यपवर्तन योजना अंतर्गत बाईपास निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकंठ टीकाम, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2018

क्रमांक/603/भू-अर्जन/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	प्राधिकृत	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	खसरा नंबर	अधिकारी	(6)
			रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	अकोलीकला	650	अनुविभागीय अधिकारी एवं	आरंग-कलई-खमतलाई-
			651/1	भू-अर्जन अधिकारी, आरंग.	भोथल-अकोलीकला-
			652		गुखेरा मार्ग चौड़ीकरण.
			0.02		
			0.04		
			0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			653	0.01	
			700	0.01	
			702	0.04	
			703/1	0.02	
			703/2	0.01	
			703/4	0.01	
			705	0.06	
			373/3	0.02	
		योग	11	0.25	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), आरंग के कार्यालय में किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसव राजू एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 4 सितम्बर 2018

क्रमांक/14513/भू-अर्जन/13 अ 82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-कोथारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.71 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1075	0.37
1076	0.18

(1)	(2)
1074	0.07
1073	0.09
योग	04
	0.71

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मुकुंदपुर एनीकट योजना के बांध लाईन में आने वाली भूमि का अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 14 दिसम्बर 2018

क्रमांक/18740/भू-अर्जन/23 अ 82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-बरपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	अनुसूची
(1)	(2)	(1) भूमि का वर्णन-
837/4	0.040	(क) जिला-जांजगीर-चांपा
		(ख) तहसील-जांजगीर
		(ग) नगर/ग्राम-सरखों, प.ह.नं. 49
		(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर
योग	01	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरपाली-तुमान मार्ग निर्माण में छोटे हुए भूमि का अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जनवरी 2019

प्र. क्रमांक 483/03/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
593/27	0.081
योग	01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत गृह निर्माण के अंतर्गत राखड़ पाईप लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार बनसोड़, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2019

क्रमांक/119/रीडर/न.भू.सी./2019.—सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-6-62/2008/सात-3/रायपुर दिनांक 03-09-2009 में दिए गए निर्देशानुसार नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम 1999 की धारा 3 एवं 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए श्री विपिन मांझी, (भा.प्र.से.) अपर कलेक्टर रायपुर को अधिकृत किया जाता है.

बसवराजु एस.
कलेक्टर.